



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 1071) पटना, वृहस्पतिवार, 17 सितम्बर 2015

सं0 कारा/नि0को(क)—56/10—5230
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

संकल्प

2 सितम्बर 2015

श्री घनश्याम राम, तत्कालीन काराधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी/मंडल कारा, आरा तथा मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन काल के कतिपय आरोपों के लिए क्रमशः गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या—7409 दिनांक 16.09.2009 तथा विभागीय संकल्प ज्ञापक—2885 दिनांक 09.07.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। सम्प्रति उक्त दोनों विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा श्री राम दिनांक 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतएव उक्त दोनों विभागीय कार्यवाहियों को दिनांक 01.07.2013 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

2. शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1071-571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>